



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 24—अक्टूबर 30, 2009 (कार्तिक 2, 1931)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 24—OCTOBER 30, 2009 (KARTIKA 2, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	981	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	993	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	75	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3555
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	1673	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	6421
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	359
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की दर्शाने वाला सम्पूरक	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	981	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	993	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	75	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1673	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3555
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	6421
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	359
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की

गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

सं. पीएफजी (693)/2009-प्रशा.-II--केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय (पूर्वी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कोलकाता में सहायक निदेशक, श्री ए. के. साहू को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया जाता है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

सं. पीएफजी (699)/2009-प्रशा.-II--केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय (पूर्वी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कोलकाता में उप निदेशक, श्री ए. के. महापात्रा को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया जाता है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

सं. पीएफजी (592)/99-प्रशा.-II--केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय (दक्षिणी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, चेन्नई में उप निदेशक, श्री डी. रामकृष्णन को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया जाता है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

सं. पीएफजी (430)/83-प्रशा.-II--केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय (दक्षिणी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, चेन्नई में संयुक्त निदेशक, श्री बी. ए. एम. पी. रत्नासामी को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया जाता है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2009

संकल्प

सं. एफ 4-1/2009-यू-3--भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् (आई. सी.पी.आर.) के नियम एवं विनियमों के नियम-10 में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्रो. के. रामाकृष्ण राव को तीन वर्षों की अवधि के लिए, तुरन्त प्रभाव से, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में पुनः नामित किया जाता है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सदस्य सचिव, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, 36, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, महारौली बंदरपुर रोड, नई दिल्ली-110062 को सूचनार्थ भेजी जाए।

उपमन्यु बसु
निदेशक

संकल्प

सं. एफ-4-1/2009-यू-3--जबकि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् को अंतिम बार दिनांक 21 मार्च, 2006 को पुनर्गठित किया गया था तथा परिषद् की अवधि चूंकि 20 मार्च, 2009 को समाप्त हो चुकी है, अब भारत सरकार ने तुरन्त प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि हेतु निम्नलिखित आठ सदस्यों के साथ एमओए के नियम-3 तथा भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् के नियमों के तहत भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् को पुनः गठित करने का प्रस्ताव पारित किया है :--

(क) अध्यक्ष प्रो. रामाकृष्ण राव

(ख) विभिन्न संगठनों के 8 प्रतिनिधि :

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि;
- (ii) भारतीय दार्शनिक कांग्रेस के दो प्रतिनिधि;
- (iii) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि;
- (iv) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि;
- (v) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का एक प्रतिनिधि;

- (vi) केन्द्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि
सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- (vii) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि वित्तीय सलाहकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(ग) भारत सरकार द्वारा नामित 12 सदस्य :

- (1) प्रो. रूप रेखा वर्मा
पूर्व अध्यक्ष, दर्शन-शास्त्र विभाग एवं पूर्व कुलपति,
लखनऊ विश्वविद्यालय
- (2) प्रो. पी. आर. भट्ट
मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई
- (3) प्रो. वी. एच. बरुआ
मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
- (4) प्रो. शरत चन्द्र पाणिग्रही
दर्शन-शास्त्र स्नातकोत्तर विभाग,
उच्च अध्ययन केन्द्र, उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर
- (5) प्रो. आर. पी. सिंह
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.), नई दिल्ली
- (6) प्रो. अशोक वोहरा
पूर्व सदस्य सचिव, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्
एवं पूर्व अध्यक्ष, दर्शन-शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
- (7) प्रो. सुंदर सरूक्की
राष्ट्रीय उच्च अध्ययन संस्थान (एन.आई.ए.एस.),
दर्शन-शास्त्र केन्द्र, भारतीय विज्ञान परिसर संस्थान, बंगलौर
- (8) प्रो. पी. के. मुखोपाध्याय
प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
एवं राष्ट्रीय फैलो, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्
- (9) प्रो. अमिताभ गुप्ता
प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई
- (10) प्रो. जनक पाण्डे
कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार
- (11) प्रो. मृणाल मिरी
पूर्व कुलपति, पूर्वोत्तर पर्वतीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(एनईएचयू)
- (12) प्रो. वनलालक
प्रोफेसर, दर्शन-शास्त्र, पूर्वोत्तर पर्वतीय केन्द्रीय
विश्वविद्यालय,
(एनईएचयू), शिलांग

(घ) परिषद् द्वारा सह-चयनित चार ख्याति प्राप्त दार्शनिक।

- (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार के दो प्रतिनिधि; और
- (च) परिषद् का सदस्य-सचिव : प्रो. गोदवरीश मिश्रा*

*उन्हें दिनांक 7.9.2007 को तीन वर्षों की अवधि हेतु सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उपमन्यु बसु
निदेशक

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

विषय :-- राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की शासी परिषद् और कार्यकारी समिति का पुनर्गठन

सं. एफ. 2-4/2000-ई.ई. 3--इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ 2-4/2000-डेस्क (ईई) दिनांक 2.1.2001 और 26.8.2003 तथा दिनांक 2.7.2007 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की शासी परिषद् और कार्यकारी समिति के गठन को अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की कार्यकारी परिषद् और शासी समिति में अगले दो वर्ष के लिए निम्नलिखित नामांकन करती है।

2. शासी परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

शासी परिषद्

- (i) भारत के प्रधानमंत्री--अध्यक्ष
- (ii) मानव संसाधन विकास मंत्री--उपाध्यक्ष
- (iii) मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री
- (iv) वित्त मंत्री, भारत सरकार
- (v) उपाध्यक्ष, योजना आयोग
- (vi) महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
- (vii) सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री
- (viii) प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के 7 वरिष्ठ स्तरीय नेता, (राजनीतिक पार्टियों द्वारा नामित)--नामांकनों को अलग से अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- (ix) 3 संसद सदस्य (2 लोक सभा से और 1 राज्य सभा से) (संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले नामांकन प्रतीक्षित हैं)--नामांकनों को अलग से अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- (x) प्रारंभिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित 6 राज्यों के शिक्षा मंत्री जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा :--

(क) तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री

- (ख) महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री
- (ग) त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री
- (घ) बिहार के शिक्षा मंत्री
- (ङ) उड़ीसा के शिक्षा मंत्री
- (च) जम्मू और कश्मीर के शिक्षा मंत्री
- (xi) शिक्षकों और शिक्षक संघों के निम्नलिखित 6 प्रतिनिधि, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा :--
- (क) श्री राम पाल सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, 41, इंस्टीट्यूशनल एरिया, डी-ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
- (ख) श्री काशीनाथ झा, अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा महासंघ, एज्जीबीशन रोड, पटना-1, बिहार
- (ग) श्री मृण्मय भट्टाचार्य, महासचिव, शिक्षक संघ का विश्व संघ, नई दिल्ली
- (घ) श्रीमती सुनीला माशी, शिक्षक, मिस्ट्रेस जी.एच.एस. स्कूल, सोहागपुर, पी.ओ. होशंगाबाद-461771 (मध्य प्रदेश)
- (ङ) सुश्री हर्षा कुमारी, हेडमास्टर, सीआईई, प्रायोगिक स्कूल, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007
- (च) श्री टी. गंगाधरन, शिक्षक, केरल शास्त्र साहित्य परिषद् कन्नूर, केरल-670002
- (xii) शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों आदि में से निम्नलिखित 5 व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा :--
- (क) प्रो. अरविन्द कुमार, होमी भाभा सेन्टर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बी.एन. पूर्व मार्ग, मानखुर्द, मुंबई-400088
- (ख) डॉ. एन. रत्नाश्री, निदेशक नेहरू तारामंडल, तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली
- (ग) डॉ. कार्तिकेय साराभाई, निदेशक सेन्टर फॉर इन्वायरनमेंट एजुकेशन, नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट, थालटेज टेकरा, अहमदाबाद-380054
- (घ) श्री अरविन्द गुप्ता, इंटर यूनिवर्सिटी सेन्टर फॉर एस्ट्रोनामि एण्ड ऐस्ट्रोफिजिक्स, गणेशखिंड, पुणे विश्वविद्यालय कैंपस, पुणे-411007
- (ङ) प्रो. अमिताभ मुखर्जी, सेन्टर फॉर साइंस एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007
- (xiii) केन्द्र सरकार द्वारा नामित शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन से छः व्यक्ति निम्नलिखित होंगे :--
- (क) सुश्री अंजली नोरोन्हा, एकलव्य, 10, शंकर नगर, भोपाल-462016 (मध्य प्रदेश)
- (ख) सुश्री लैला तैयबजी, अध्यक्ष, दस्तकार, 45-बी, शाहपुर जट, नई दिल्ली-110049
- (ग) श्री के. के. कृष्ण कुमार, अध्यक्ष, भारत ज्ञान-विज्ञान समिति, वाई डब्ल्यू ए होस्टल-II बेसमेंट, जी-ब्लाक, एवेन्यू-21, साकेत, नई दिल्ली-110017
- (घ) डॉ. गुरवीन कौर, सचिव, सेन्टर फॉर लर्निंग, प्लॉट नं. 56, साई सागर एन्क्लेव, कांचीगुडा, सिकन्दराबाद-500015
- (ङ) डॉ. जीन ड्रेज, विजिटिंग प्रोफेसर, गोविंद वल्लभपंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, झुसी, इलाहाबाद-211019
- (च) सुश्री मीना स्वामीनाथन, उत्तरादेवी सेन्टर फॉर जेण्डर डेवलपमेंट, एम. एस. स्वामीनाथन फाउण्डेशन, तीसरा क्रॉस रोड, तारामनी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, चेन्नई-600113 (तमिलनाडु)
- (xiv) सरकार द्वारा महिला संगठनों से निम्नलिखित तीन व्यक्ति नामित किए जाएंगे :--
- (क) सुश्री दीप्ता भेग, निरंतर, सेन्टर फॉर जेंडर एंड एजुकेशन, बी-64, दूसरा तल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017
- (ख) सुश्री रेनना झाबवाला, सेल्फ एम्प्लॉइड वूमन एसोसिएशन, सेवा, रिसेशन सेंटर, विक्टोरिया गार्डन के सामने, भद्रा, अहमदाबाद-380001
- (ग) डॉ. स्मृति एस. सरूप, निदेशक, सेन्टर ऑफ स्पेशल एजुकेशन एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, सर विठ्ठल दास विद्या विहार, जुहु रोड, सान्ताक्रूज (प), मुम्बई-400009
- (xv) भारत सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच कार्य कर रहे निम्नलिखित तीन व्यक्तियों को नामित किया जाएगा :--
- (क) प्रो. पद्मा वेलास्कर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, बी. एन. पूर्वा मार्ग, देवनार, मुम्बई-400088
- (ख) श्रीमती रागिनी प्रेम, बनवासी सेवा आश्रम, पी.ओ. गोविंदपुर, वाया तुरा, सोनभद्र-231221 (उत्तर प्रदेश)
- (ग) प्रो. कंचन इल्लया, राजनीति विज्ञान विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500007
3. पदेन-सदस्य निम्नलिखित होंगे :--
- (क) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- (ख) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
- (ग) कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
- (घ) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
- (ङ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्
- (च) महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
- (छ) संयुक्त सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा और महानिदेशक, सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन--सदस्य सचिव

4. सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को जिसे वे आवश्यक समझते हैं, विशेष आमंत्रित के रूप में परिषद् की बैठक में अतिरिक्त रूप से आमंत्रित कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के शासी परिषद् के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे तथा पुनर्नामन के पात्र होंगे।

कार्यकारी-समिति

5. राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की कार्यकारी समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :--

- (i) मानव संसाधन विकास मंत्री--अध्यक्ष
- (ii) मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (प्रारंभिक शिक्षा का प्रभार)--वरिष्ठ उपाध्यक्ष
- (iii) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग--उपाध्यक्ष
- (iv) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
- (v) कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय
- (vi) अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्
- (vii) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
- (viii) महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
- (ix) वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- (x) प्रधान सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग
- (xi) भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सात गैर-सरकारी लोगों को नामित किया जाएगा, जिसमें शिक्षक, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद् शामिल होंगे :--
 - (क) प्रो. कृष्ण कुमार, शिक्षाविद्, नई दिल्ली
 - (ख) डॉ. रामानुजन, गणित-विज्ञान संस्थान संकाय, 4 क्रॉस, सीआईटी कैम्पस, तारामनी, चेन्नई-600113 (तमिलनाडु)
 - (ग) सुश्री विमला रामचंद्रन, शिक्षाविद्, एक्ससी-1, साह-विकास, 68, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092
 - (घ) श्री अनिल बोर्डिया, पूर्व संघ शिक्षा सचिव, सी-113, शिवाजी मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-302004, राजस्थान
 - (ङ) सुश्री सीमान्तिनी धुरु, अवेही अबाकस, तीसरा तल, के. के. मार्ग, निगम स्कूल, सात रास्ता, महालक्ष्मी, मुंबई-400011
 - (च) सुश्री पूनम नटराजन, ऑटिस्म, सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि और बहु-विकलांग लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्ष, 16-बी, बड़ा बाजार, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

(छ) श्री अरुण कपूर, निदेशक, वसंत वैली स्कूल, सेक्टर-सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

(xii) भारत सरकार द्वारा यथानामित प्रारंभिक शिक्षा का कार्य देखने वाले चार राज्यों के शिक्षा सचिव :--

(क) आंध्र प्रदेश के शिक्षा सचिव

(ख) झारखंड के शिक्षा सचिव

(ग) छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव

(घ) राजस्थान के शिक्षा सचिव

(xiii) संयुक्त सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और महानिदेशक, राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन--सदस्य सचिव।

डी. के. गौतम
उप सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

संकल्प

सं. एफ.-9-14/2009/ए.एस.आई./ए.एस.--एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 5) के खंड-8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 10 सितम्बर, 2009 के संकल्प सं. एफ.-9-14/2009/ए.एस.आई./ए.एस. के क्रम में, केन्द्र सरकार एतद्वारा एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के योजना बोर्ड में निम्नलिखित दो सदस्यों के नाम शामिल करता है :--

1. श्री प्रदीप भट्टाचार्य
सदस्य, परिषद्, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता
2. प्रो. हसन-उर-रहमान,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर, इतिहास
प्रेसीडेंसी कालेज, कोलकाता

उपर्युक्त नियुक्ति, इस संकल्प के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार वर्षों के लिए प्रभावी होगी।

योजना बोर्ड के कार्यकलापों को शासित करने वाले नियम वही होंगे, जैसा कि दिनांक 25 जून, 1984 के सा. का. नि. 472 (ई) के तहत अधिसूचित किया गया है (सं. एफ. 8-16/84-सी एच-डेस्क)।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनिता सिन्हा
निदेशक

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 1st October 2009

No. PFG (693)/2009-Admn. II—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby authorize Shri A. K. Sahoo, Assistant Director in the Office of Regional Director (Eastern Region), Ministry of Corporate Affairs, Kolkata for the purpose of the said section.

J. S. GUPTA
Under Secy.

No. PFG (699)/2009-Admn. II—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby authorize Shri A. K. Mahapatra, Deputy Director in the Office of Regional Director (Eastern Region), Ministry of Corporate Affairs, Kolkata for the purpose of the said section.

J. S. GUPTA
Under Secy.

No. PFG (592)/99-Admn. II—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby authorize Shri D. Ramakrishnan, Deputy Director in the Office of Regional Director (Southern Region), Ministry of Corporate Affairs, Chennai for the purpose of the said section.

J. S. GUPTA
Under Secy.

No. PFG (430)/83-Admn. II—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby authorize Shri B.A.M.P. Rathnasami, Joint Director in the Office of Regional Director (Southern Region), Ministry of Corporate Affairs, Chennai for the purpose of the said section.

J. S. GUPTA
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 19th September 2009

RESOLUTION

No. F. 4-1/2009-U.3—In terms of the provisions contained in Rule 10 of the Rules and Regulations of the Indian Council of Philosophical Research (ICPR), New Delhi, Prof. K. Ramakrishna Rao is re-nominated as the Chairman

of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi with immediate effect, for a period of three years.

ORDER

Ordered that, the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also, ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Member Secretary, Indian Council of Philosophical Research, 36, Tughlakabad Institutional Area, Mehrauli Badarpur Road, New Delhi-110062.

UPAMANYU BASU
Director

RESOLUTION

No. F. 4-1/2009-U.3—Whereas the Indian Council of Philosophical Research was last re-constituted on the 21st March 2006 and the term of the Council has since expired on 20th March 2009, the Government of India have now resolved to re-constitute the Indian Council of Philosophical Research under Rule 3 of the MOA & rules of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi with the following members for a period of three years with immediate effect :—

(a) Chairman Prof. Ramakrishna Rao

(b) Eight Representatives of Different Organizations;

- (i) a representative of the University Grants Commission;
- (ii) Two representatives of the Indian Philosophical Congress;
- (ii) a representative of the Indian Council of Social Science Research;
- (iv) A representative of the Indian Council of Historical Research;
- (v) A representative of the National Science Academy;
- (vi) A representative of the Union Ministry of Education and Social Welfare, Department of Education

Secretary, Department of Higher Education,
Ministry of Human Resource Development

(vii) A representative of the Ministry of finance

Financial Adviser, Department of Higher
Education, Ministry of Human Resource
Development

(c) Twelve members nominated by the Government of India;

- (1) Prof. Roop Rekha Varma
Former Head, Department of Philosophy &
Former Vice Chancellor, Lucknow University

- (2) Prof. P. R. Bhatt
Department of Humanities and Social
Sciences Indian Institute of Technology,
Bombay
 - (3) Prof. B. H. Baruah
Department of Humanities and Social
Sciences Indian Institute of Technology,
Delhi
 - (4) Prof. Sarat Chandra Panigrahi
P.G. Department of Philosophy,
Centre for Advanced Studies,
Utkal University Bhubaneswar
 - (5) Prof. R. P. Singh
Jawaharlal Nehru University (JNU),
New Delhi
 - (6) Prof. Ashok Vohra
Former Member Secretary, Indian Council
of Philosophical Research & Former Head,
Department of Philosophy, University of
Delhi
 - (7) Prof. Sundar Sarukkai
Centre for Philosophy, National Institute of
Advanced Studies (NIAS) Indian Institute
of Science Campus, Bangalore
 - (8) Prof. P. K. Mukhopadhyay
Professor (Retired), Jadavpur University
Kolkata & National Fellow, Indian Council
of Philosophical Research
 - (9) Prof. Amitabh Gupta
Professor (Retired), Department of
Humanities and Social Sciences Indian
Institute of Technology, Bombay
 - (10) Prof. Janak Pandey
Vice Chancellor, Central University of Bihar
 - (11) Prof. Mrinal Miri
Former Vice Chancellor, North East Hill
University (NEHU)
 - (12) Prof. Vanlalchkak
Professor of Philosophy, North East Hill
University (NEHU) Shillong
- (d) Four eminent philosophers to be co-opted by the
Council;
- (e) Two representatives of the Government of Uttar Pradesh;
and
- (f) Member Secretary of the Council : Prof. Godabarisha
Mishra*

*He was appointed as Member Secretary for a period
of three years w.e.f. 7/9/2007.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette
of India for general information.

UPAMANYU BASU
Director

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

New Delhi, the 1st October-2009

Subject :—Re-constitution of Governing Council and
Executive Committee of National Mission of
Sarva Shiksha Abhiyan.

No. F- 2-4/2000-EE. 3—In pursuance of this Ministry's
Resolution No. F. 2-4/2000-Desk (EE) dated 02.01.2001 &
26.08.2003 and notification of even number, dated 02.07.2007,
notifying the composition of Governing Council and
Executive Committee of the National Mission of Sarva
Shiksha Abhiyan (SSA). The Government of India hereby
makes the following nominations on the Governing Council
and Executive Committee of National Mission of Sarva
Shiksha Abhiyan (SSA) for the next two years.

2. The Governing Council will comprise of the following :—

GOVERNING COUNCIL

- (i) Prime Minister of India—Chairman
- (ii) Minister of Human Resource Development—Vice-
Chairman
- (iii) Minister of State; Human Resource Development
- (iv) Finance Minister, Govt. of India
- (v) Deputy Chariman, Planning Commission
- (vi) Minister of State for Women & Child Development
- (vii) Minister of State for Social Justice &
Empowerment
- (viii) Seven Senior level political leaders of the main
National Parties (as nominated by the Political
Parties)—nominations being finalized separately.
- (ix) Three Members of Parliament (Two from the Lok
Sabha and one from the Rajya Sabha) (nomination
by the Ministry of Parliamentary Affairs awaited)—
nomination being finalized separately.
- (x) Six Education Minister of States responsible for
Elementary Education nominated by Government
of India shall be as follows :—
 - (a) Education Minister of Tamil Nadu
 - (b) Education Minister of Maharashtra
 - (c) Education Minister of Tripura
 - (d) Education Minister of Bihar

- (e) Education Minister of Orissa
- (f) Education Minister of Jammu & Kashmir
- (xi) Six representatives of Teachers and Teacher unions nominated by Government of India shall be as follows :—
- (a) Shri Ram Pal Singh, President, all India Primary Teachers' Federation (ATPTE), 41, Institutional Area, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058.
- (b) Shri Kasinath Jha, President, Prathamik Shiksha Mahasangh, Exhibition Road, Patna-1, Bihar.
- (c) Shri Mrinmoy Bhattacharya, General Secretary, World Federation of Teachers' Union, New Delhi.
- (d) Mrs. Sunila Mashri, Teacher, Mistress G.H.S. School, Sohagpur P.O. Hoshangabad-461771 (MP).
- (e) Ms. Harsha Kumari, Head Mistress, CIE, Experimental School, Deptt. of Education, Delhi University, Delhi-110007.
- (f) Shri T. Gangadharan, Teacher, Kerala Sasthra Parishad, Kannur, Kerala-670002.
- (xii) Five persons from among educationists, Scientists etc. nominated by Government of India shall be as follows :—
- (a) Prof. Arvind Kumar, Homi Bhabha Centre for Science and Education (HBCSE), Tata Institute of Fundamental Research, V. N. Purba Marg, Mankhurd, Mumbai-400088.
- (b) Dr. N. Ratnashree, Director, Nehru Planetarium, Teen Murti House, New Delhi.
- (c) Dr. Kartikeya Sarabhai, Director, Centre for Environment Education, Nehru Foundation for Development, Thalaj Tekra, Ahmedabad-380054.
- (d) Shri Arvind Gupta, Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics, Geneskhind, Pune University Campus, Pune-411007.
- (e) Prof. Amitabha Mukherjee, Centre for Science Education and Communication, University of Delhi, Delhi-110007.
- (xiii) Six persons from Non-Governmental Organizations working in the field of Education nominated by Government of India shall be as follows :—
- (a) Ms. Anjali Noronha, Eklavya, 10, Shankar Nagar, Bhopal-462016 (Madhya Pradesh)
- (b) Ms. Laila Tyabji, Chairperson, DASTKAR, 45-B, Shahpur Jat, New Delhi-110049.
- (c) Shri K. K. Krishna Kumar, President, Bharat Gyan Vigyan Samiti (BGVS), Basement of Y.W.A. Hostel-II, G-Block, Avenue-21 Saket, New Delhi-110017.
- (d) Dr. Gurveen Kaur, Secretary, Centre for Learning, Plot No. 56, Sai Sagar Enclave, Kanchiguda, Secundrabad-500015.
- (e) Dr. Jean Dreze, Visiting Prof. Govind Ballabh Pant Social Science Institute, Jhusi, Allahabad-211019.
- (f) Ms. Mina Swaminathan, Uttara Devi Centre for Gender Development, MS Swaminathan Foundation 3rd Cross Road, Taramani Institutional Area, Chennai-600113 (Tamil Nadu).
- (xiv) Three persons from women's organizations nominated by Government of India shall be as follows :—
- (a) Ms. Dipta Bhog, Nirantar, Centre for Gender and Education, B-64, 2nd Floor, Sarvodaya Enclave, New Delhi-110017.
- (b) Ms. Renana Jhabvala, Self Employed Women's Association, SEWA Reception Centre, Opp. Victoria Garden, Bhadra, Ahmedabad-380001.
- (c) Dr. Smriti S. Sarup, Director, Centre of Special Education SNDT Women's University, Sir Vithal Das Vidya Vihar, Juhu Road, Santa Cruz (W), Mumbai-400009.
- (xv) Three persons working among Scheduled Caste and Scheduled Tribes in the field of Elementary Education nominated by Government of India shall be as follows :—
- (a) Prof. Padma Velaskar, Tata Institute of Social Sciences (TISS), V. N. Poorba Marg, Deonar, Mumbai-400088.
- (b) Smt. Ragini Prem, Banavasi Seva Ashram, P.O. Govindpur, Via Turra, Sonbhadra-231221 (Uttar Pradesh).
- (c) Prof. Kanchan Ilaiyah, Department of Political Science, Osmania University-Hyderabad-500007.
3. The following shall be the ex-officio members :
- (a) Secretary, Department of School Education & Literacy
- (b) Director General, National Literacy Mission (NLM)
- (c) Vice-Chancellor, National University of Educational Planning & Administration (NUEPA).
- (d) Director, National Council of Education Research & Training (NCERT)

- (e) Chairman, National Council of Teacher Education (NCTE)
- (f) Director General, Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)
- (g) Joint Secretary, Elementary Education and Director General, Sarva Shiksha Abhiyan National Mission—Member Secretary.

4. The Chairman of Sarva Shiksha Abhiyan National Mission may additionally, invite to the meeting of the Councils, as special invitee, such person as may be deemed necessary. The Members of the Governing Council of National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan shall hold office for a term of two years and will be eligible for re-nomination.

EXECUTIVE COMMITTEE

5. The Sarva Shiksha Abhiyan National Mission will have an Executive Committee consisting of the following :—

- (i) Minister, Human Resource Development—Chairman
- (ii) Minister of State (incharge of elementary education), Human Resource Development Sr. Vice-Chairman
- (iii) Secretary, Deptt. of School Education & Literacy—Vice-Chairman
- (iv) Director, National Council of Educational Research & Training (NCERT)
- (v) Vice-Chancellor, National University of Educational Planning & Administration (NUEPA)
- (vi) Chairman, National Council of Teacher Education (NCTE)
- (vii) Director General, National Literacy Mission (NLM)
- (viii) Director General, Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)
- (ix) Financial Adviser, Ministry of Human Resource Development
- (x) Principal Adviser (Education), Planning Commission
- (xi) Seven non-officials comprising of teachers, NGOs representatives, educationists nominated by the Government of India shall be as follows :—
 - (a) Prof. Krishna Kumar, Educationist, New Delhi.
 - (b) Dr. Ramanujan, Faculty at Institute of Mathematical Sciences Institute, 4th Cross, CIT Campus, Tharamani, Chennai-600113 (Tamil Nadu).
 - (c) Ms. Vimala Ramachandran, Educationist, XC-1, Sah-Vikas, 68, I.P. Extension, Delhi-110092.

(d) Shri Anil Bordia, Former Union Education Secretary, C-113, Shivaji Marg, Tilak Nagar, Jaipur-302004, Rajasthan.

(e) Ms. Simantini Dhuru, AVEHI ABACUS, 3rd floor, K. K. Marg, Municipal School, Saat Rasta, Mahalaxmi, Mumbai-400011.

(f) Ms. Poonam Natarajan, Chairperson of the National Trust for Welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, 16-B, Bada Bazar, Old Rajender Nagar, New Delhi-110060.

(g) Shri Arun Kapoor, Director, Vasant Valley School, Sector-C, Vasant Kunj, New Delhi-110070.

(xii) Educational Secretaries of Four States dealing with elementary education as nominated by Government of India :—

- (a) Educational Secretary of Andhra Pradesh
- (b) Educational Secretary of Jharkhand
- (c) Education Secretary of Chhattisgarh
- (d) Education Secretary of Rajasthan

(xiii) Joint Secretary, Elementary Educational & Director General Sarva Shiksha Abhiyan National Mission—Member Secretary.

D. K. GAUTAM
Deputy Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 5th October 2009

No. F. 9-14/2009/ASI/AS—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Asiatic Society Act, 1984 (5 of 1984) and in continuation of Resolution No. F. 9-14/2009/ASI/AS dated 10th September, 2009 published in the Gazette of India, the Central Government hereby adds following two members to the Planning Board of the Asiatic Society, Kolkata as under :—

1. Shri Pradeep Bhattacharya
Member, Council, Asiatic Society, Kolkata.
2. Prof. Hossun-ur-Rehman,
Retired Professor of History
Presidency College, Kolkata.

The above appointment will be effective for four years from the date of publication of this Resolution in the Gazette of India.

The rules governing the activities of the Planning Board will be the same as notified vide GSR 472(E) dated 25th June, 1984 (No. F. 8-16/84-CH-Desk).

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India.

ANITA SINHA
Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009